



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 03 किलो अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुमार द्वारा गठित की गयी उ०नि० विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त संजय नायक पुत्र केशवकान्त नायक उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला गाँधी आश्रम जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मुहल्ला मस्तियाना को जाने वाली सड़क पर बहद कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ के पास से पुलिस हिरासत में लिया जिसकी जामा तलाशी पर एक बैग में 03 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 178/2022 धारा 8/20 **NDPS ACT** का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

संजय नायक पुत्र केशवकान्त नायक उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मुहल्ला गाँधी आश्रम जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

बरामदगी- एक बैग में 03 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद
गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- (1) उ(चौकी प्रभारी बेलाताल) विनोद कुमार सिंह 0नि0
- (2) हे राजकुमार 0कां0 (3) हेकन्हैयालाल पटेल 0कां0 (4) कांप्रशांक कुमार 0





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 13.07.2022 को कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित उ0नि0 गणेश कुमार चौकी प्रभारी पसवारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चलाये जा रहे अभियान मादक पदार्थ/अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत 20 क्वार्टर अवैध शराब के साथ अभियुक्त सीताराम पुत्र हल्काई कुशवाहा उम्र 37 वर्ष निवासी टीकामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सीताराम पुत्र हल्काई कुशवाहा उम्र 37 वर्ष निवासी टीकामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गणेश कुमार चौकी प्रभारी पसवारा थाना कोतवाली महोबा
2. हे0कां0 अमर सिंह कुशवाहा
3. कां0 प्रमोद सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर प्रतिदिन की भांति जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित -

आज दिनांक 13.07.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



“पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा की गयी मासिक अपराध गोष्ठी/सैनिक सम्मेलन” अपराधों की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा जनपद में शांति व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आज दिनांक 13.07.2022 को पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निर्देश दिये गये, गोष्ठी के प्रारम्भ में जनपद के विभिन्न थानों/चौकियों से आये पुलिस कर्मियों के साथ सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारीगण द्वारा बतायी गयी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में घटित घटनाओं एवं लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मां0 सीएम हेल्पलाइन/आईजीआरएस से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने एवं आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने के निर्देश दिये साथ ही आगामी त्यौहार श्रावण मास/कावड़ यात्रा व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थलों, कांवड़ियों के आने-जाने वाले रास्तों, मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था व इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु फूट पैट्रोलिंग नियमित की जाये व इस दौरान स्थानीय



लोगों से वार्ता कर अपराध की जानकारी भी ली जाये, महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा गुमशुदा/अपहृता की सर्विलांश के माध्यम से जल्द बरामदगी करने, लम्बित पंचायतनामा/एनसीआर का निस्तारण करने, शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की समीक्षा की गई, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब/जुआ के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी

रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। थानों पर दाखिल विभिन्न अभियोगों से संबंधित माल मुकदमाती के विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये साथ ही शेष लम्बित अभियोगों की समीक्षा कर अभियोगों के अनावरण करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

उक्त मासिक अपराध गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र सहित जनपदीय पुलिस के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त शाखा प्रभारी आदि अधिकारी/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारियों के साथ की गयी समीक्षा गोष्ठी।

आज दिनांक 13.07.2022 को श्री विपिन कुमार मिश्र, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा के जनपद महोबा निरीक्षण/भ्रमण के प्रस्तावित कार्यक्रम के क्रम में सर्वप्रथम महोदय द्वारा पुलिस लाइन महोबा में गार्ड की सलामी ली गयी, तदोपरान्त महोदय द्वारा पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभाकक्ष में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई, गोष्ठी में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण का महोदय द्वारा परिचय प्राप्त किया गया व स्वयं का परिचय भी सभी मौजूद अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा समीक्षा गोष्ठी के

दौरान आगामी त्यौहार, श्रावण मास, कावड़ यात्रा की तैयारियों के साथ-साथ जनपद में घटित अपराधों की समीक्षा की गयी।

➔ **आगामी त्योहार श्रावण मास, कावड़ यात्रा के संबंध में प्रमुख निर्देश-**

इस दौरान आगामी त्यौहार श्रावण मास/कावड़ यात्रा के अवसर पर कावड़ मार्ग शिव आराधना जल देने का स्थान पर समुचित पुलिस प्रबंध किया जाए, समस्त ट्रबल स्पॉट चिन्हित कर पुलिस गश्त, पिकेट

की प्रभावी व्यवस्था की जाए। कोई दुर्घटना ना होने पाए के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष प्राथमिकता दी जाए, कावड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न होने पाये संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की



तैनाती व ड्रोन कैमरो का भी उपयोग किया जाय, कांवड़ियों के साथ किसी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अतः इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जाए जिससे त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।



सोशल मीडिया का दुरुपयोग, अफवाहों व झूठी खबरों पर ध्यान न देने आदि के संबंध में आम जनमानस को जागरूक किया जाय साथ ही माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजकतत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। सांयकाल पुलिस बल द्वारा स्थान बदल-बदल कर फुट पेट्रोलिंग करने तथा वाहनों की चेंकिंग किये जाने के भी निर्देश दिये गये,

जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



- ➔ प्रत्येक दिवस प्रातः 10-11 बजे तक अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई नियमित रूप से करें।
- ➔ प्रत्येक रविवार को थाना/कार्यालय/पुलिस लाइन में सफाई अभियान चलाकर साफ-सफाई कराये।
- ➔ आईजीआरएस से प्राप्त संदर्भों का निस्तारण नियमानुसार एवं समय पर गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- ➔ गुमशुदा/अपहरण से सम्बन्धित अभियोगों में टीम बनाकर बरामदगी करना सुनिश्चित करें।

➔ अपराध समीक्षा- ➔

समीक्षा के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था बेहतर बनाये रखने और जनपद में घटित घटनाओं की प्रगति प्राप्त करते हुये शासन की मंशा के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, कहा गया कि अपराधियों की सूची बनाकर उनके विरुद्ध गैंगस्टर, N.S.A और उनके अवैध कारनामों से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने के निर्देश दिये गये। महिला सम्बन्धी सभी अपराधों में तत्काल यथोचित कार्यवाही करने व ऐसे अपराधों में घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए गए।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र सहित जनपदीय पुलिस के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित विभिन्न शाखाओं में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम के नेतृत्व में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त किया गया।

आज दिनांक 13.07.2022 को श्री विपिन कुमार मिश्र, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम द्वारा जनपद महोबा में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत महोदय के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक महोबा, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व अन्य अधिकारीगणों द्वारा मय कोतवाली पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परमानन्द तिराहे से हमीरपुर चुंगी तक प्रभावी पैदल गस्त करते हुए आम जनता में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाया गया। तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 54 ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस